

मध्यप्रदेश विधान सभा



फरवरी-मार्च, 2015 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 26 फरवरी, 2015 (फाल्गुन 7, 1936)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य, उज्जैन के नागदा स्थित निजी उद्योगों द्वारा सेवा निवृत्ति के नियमों का पालन न किये जाने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री शैलेन्द्र पटेल, सदस्य, सीहोर जिले के अनेक ग्रामों की बिजली प्रदाय बंद किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति / स्वीकृति

(1) श्री गोपीलाल जाटव, सभापति, गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे कि -

“सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के षष्ठम् प्रतिवेदन से सहमत है.”.

(2) श्री रुस्तम सिंह, सदस्य, नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री भारत सिंह कुशवाह, सदस्य, ग्वालियर जिले के -

(क) ग्राम घासीपुरा में शासकीय प्राथमिक विद्यालय की बाउन्ड्री वाल बनाये जाने,

(ख) ग्राम जखारा मोहल्ले में सी.सी. रोड़ बनाये जाने,

(ग) ग्राम सूरु से चन्दपुरा तक रोड़ बनाये जाने,

(घ) ग्राम बड़ोरी में नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने,

(ङ.) ग्राम खेरिया में मनोरंजन भवन बनाये जाने,

(च) ग्राम पुरानी छावनी में सी.सी. रोड़ निर्माण,

(छ) ग्राम सकतपुरा नदी पर रपटा निर्माण किये जाने,

(ज) ग्राम चक केशवपुर में नल-जल योजना स्वीकृत किये जाने, तथा

(झ) ग्राम बीलारा में नल-जल योजना स्वीकृत किये जाने,

(2) श्री हर्ष यादव, सदस्य, सागर जिले के -

(क) ग्राम समनापुर से रसेना तक नहर स्वीकृत किये जाने,

(ख) विकासखण्ड देवरी में पॉलीटेक्निक कालेज खोले जाने,

(ग) ग्राम चदेना तिराहा से जमतारा तक सड़क निर्माण किये जाने,

(घ) ग्राम कुसमी के सिद्धबाबा झिन्ना नाले पर स्टाप डेम निर्माण किये जाने, तथा

(ङ.) ग्राम जमतारा के बड़ईया घाट के नाले पर स्टाप डेम निर्माण किये जाने,

- (3) श्रीमती योगिता नवलसिंग बोरकर, सदस्य, खण्डवा जिले के –
- (क) ग्राम गरणगांव के माध्यमिक शाला को हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,
 - (ख) ग्राम बडिया से खारवां के बीच सड़क बनाये जाने,
 - (ग) ग्राम बरखेड़ी में खाद्यान्न पर्ची वितरित किये जाने, तथा
 - (घ) ग्राम खिराला में विद्युत पोल लगाकर लाईन विस्तार एवं अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की व्यवस्था किये जाने,
- (4) श्री इन्दर सिंह परमार, सदस्य, शाजापुर जिले के –
- (क) ग्राम भरदी से राठौर मुहल्ले तक सड़क बनाये जाने,
 - (ख) ग्राम चाकरोद में सड़क निर्माण किये जाने,
 - (ग) ग्राम रानी बड़ौद को मुख्य मार्ग से जोड़े जाने,
 - (घ) ग्राम अकोदिया में राजस्व निरीक्षक वृत्त बनाये जाने, तथा
 - (ङ.) कालापीपल बस स्टैण्ड से पानखेड़ी तक रोड बनाये जाने,
- के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

- (1) श्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री, मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 1 सन् 2015) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.
- (2) श्री कैलाश विजयवर्गीय, नगरीय विकास एवं पर्यावरण मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 2 सन् 2015) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

6. वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

भोपाल :
दिनांक : 25 फरवरी, 2015

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा